



**Date: 15.08.2024**

To,  
Bombay Stock Exchange  
Corporate Relationship Department  
1st Floor, New Trading Ring,  
Rotunda Building,  
P.J. Towers, Dalal Street Fort,  
Mumbai-400 001

**Scrip Code: 531900**  
**Scrip id: CCLINTER**

**Sub: Submission of Copies of Newspaper Clippings of Standalone Un-Audited Financial Results for the Quarter ended on 30<sup>th</sup> June, 2024**

Respected Sir,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, please find the enclosed copy of Newspaper Clippings of Standalone Un-Audited Financial Results for the Quarter ended on 30<sup>th</sup> June 2024 as published in:

- i. Financial Express dated 15.08.2024
- ii. Jansatta dated 15.08.2024

Kindly take the above information on record and acknowledge the receipt.

Thanking You  
Yours faithfully,

**For CCL International Limited**

**Akash Gupta**  
**Director**  
**DIN : 01940481**

**Form No. INC-26**  
(Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)  
Before the Central Government,  
Regional Director, Northern Region, New Delhi  
In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND  
In the matter of  
**M/S. GOURMET INVESTMENTS PRIVATE LIMITED** (CIN: U74900DL2007PTC19398) having its Registered Office at Bharti Crescent, 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, Phase-II, New Delhi, Delhi-110070  
.....Applicant Company / Petitioner  
NOTICE is hereby given to the General Public that the Applicant Company proposes to make an application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary General Meeting held on August 13<sup>th</sup> 2024 to enable the Company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Haryana".  
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post his /her objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, within fourteen (14) days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its Registered Office at the registered address mentioned below:-  
Bharti Crescent, 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, Phase-II, New Delhi, Delhi-110070  
For & on behalf of Gourmet Investments Private Limited  
Sd/-  
**PUNEET TANDON**  
(DIRECTOR)  
DIN: 07464132  
Date : 14.08.2024 | Place : New Delhi

**CCL INTERNATIONAL LIMITED**  
CIN: L26940DL1991PLC044520  
REGD.OFF.: M-4, GUPTA TOWER, B 1/1, COMMERCIAL COMPLEX, AZADPUR, NEW-DELHI-110 033  
Corp. Office : C-42, RDC, RAJ NAGAR GHAZIABAD-201002  
Phone: 0120-4214258 Email ID: cmpsec@ccll.com, Website: [www.evocreteindia.com](http://www.evocreteindia.com)

**EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2024**

S. No.	Particulars	Standalone			
		Quarter ended		Year ended	
		30.06.2024 Unaudited	31.03.2024 Audited	30.06.2023 Unaudited	31.03.2024 Audited
1	Total income from operations	693.76	1,646.58	576.44	3,676.85
2	Net Profit/ (loss) for the period (before Tax, exceptional and extraordinary items)	16.83	48.32	9.38	97.90
3	Net Profit/ (loss) for the period before Tax (after exceptional and extraordinary items)	16.83	48.32	9.38	97.90
4	Net profit/(loss) for the period after tax	14.93	94.56	11.11	146.64
5	Total comprehensive income for the period [Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	14.93	94.56	11.11	146.64
6	Equity share capital (Face Value of Rs. 10/-)	1,919.26	1,919.26	1,919.26	1,919.26
7	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet	-	-	-	4,654.90
8	Earnings per share				
	(1) Basic	0.08	0.49	0.06	0.76
	(2) Diluted	0.08	0.49	0.06	0.76

Note:  
The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30.06.2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said Financial Results is available on the websites of the Stock Exchange at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the website of the Company at [www.evocreteindia.com](http://www.evocreteindia.com).

For and behalf of Board of Directors  
**CCL International Limited**  
Sd/-  
Rama Gupta  
Managing Director  
DIN : 00080613  
Sd/-  
Akash Gupta  
Director  
DIN : 01940481  
Date: 14.08.2024  
Place : Ghaziabad

**SONI MEDICARE LIMITED**  
REGD OFFICE: 38,KANOTA BAGH, JAWAHAR LAL NEHRU MARG, JAIPUR 302004  
CIN : L51397RJ1988PLC004569, Email: [cs@sonihospitals.com](mailto:cs@sonihospitals.com)  
Website:[www.sonihospitals.com](http://www.sonihospitals.com)  
Contact No. 0141-5163700, FAX: 0141-2564392

**EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2024**

S. No.	Particulars	3 Months ended	Preceding 3 Months ended	Corresponding 3 Months ended in year previous	Year Ended
		30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
		(Unaudited)	(Audited)	( Unaudited )	( Audited )
1	Income from Operations (Net)	708.27	686.24	753.60	2,725.50
	Other Operating Income	19.57	28.55	20.12	126.94
2	Profit and (Loss) before exceptional items and tax	(85.64)	(87.63)	11.40	(162.76)
3	Net Profit/ (Loss) for the Period after tax	(86.63)	(89.47)	9.17	(168.19)
4	Paid up share capital Face Value of Rs.10/- each)	426.49	426.49	426.49	426.49
5	Basic and diluted EPS ( Not Annulized ) (Rs.)				
	Basic	(2.03)	(2.10)	0.21	(3.94)
	Diluted	(2.03)	(2.10)	0.21	(3.94)

Notes :  
(i) The above results have been approved by the Board of Directors at its meeting on 14th August, 2024.  
(ii) The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Year ended audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Year ended audited Financial Results are available on the website of Stock Exchange ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and on the Company's website ([www.sonihospitals.com](http://www.sonihospitals.com))

By Order of the Board of Directors  
For **Soni Medicare Limited**  
Sd /-  
**Bimal Roy Soni**  
( Managing Director )  
DIN: 00716246  
Date : 14.08.2024  
Place : Jaipur

**MAHESHWARI LOGISTICS LIMITED**  
CIN: L60232GJ2006PLC049224  
Address: MLL House, Shed No. A2-3/2, Opp. UPL, 1<sup>st</sup> Phase, GIDC, Vapi-396195,  
Email: [info@mpl.biz](mailto:info@mpl.biz), Website: [www.mpl.biz](http://www.mpl.biz)

**Extract of Standalone and Consolidated Un Audited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2024**

Sr. No.	Particulars	(Amount in Lakhs Except EPS))							
		Standalone				Consolidated			
		Quarter ended		Quarter ended		Quarter ended		Quarter ended	
		30-06-24 UnAudited	31-03-24 Audited	30-06-23 UnAudited	31-03-24 Audited	30-06-24 UnAudited	31-03-24 Audited	30-06-23 UnAudited	31-03-24 Audited
1	Total Income from Operations	24,530.45	25,592.43	26,754.30	25,002.20	26,062.54	27,125.66		
2	Earnings before Interest Depreciation and Tax (EBIDTA)	1,506.59	1,491.71	1,407.46	1,521.27	1,436.97	1,423.83		
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	402.40	314.78	472.20	387.20	272.25	488.07		
4	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	402.40	314.78	472.20	387.20	272.25	488.07		
5	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	377.12	341.05	304.94	361.91	325.57	314.92		
6	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	415.33	367.96	298.84	400.13	352.74	306.82		
7	Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- per Share)	2,959.72	2,959.72	2,959.72	2,959.72	2,959.72	2,959.72		
	Earnings per equity share								
	(a) Basic	1.27	1.15	1.04	1.25	1.11	1.03		
	(b) Diluted	1.27	1.15	1.04	1.25	1.11	1.03		

Notes :  
1. The above Unaudited Financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meeting held on 14th August, 2024.  
2. The above is an extract of the detailed format of quarterly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly Results are available on the websites of the Stock Exchanges at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and the Company's website at [www.mpl.biz](http://www.mpl.biz).  
3. Figures have been regrouped wherever necessary.

On behalf of the Board of Directors of  
**MAHESHWARI LOGISTICS LIMITED**  
Sd/-  
Neeraj Maheshwari  
Chairman and Managing Director  
DIN : 01010325  
Place: Vapi  
Date: 14.08.2024

**EKAM LEASING AND FINANCE CO. LIMITED**  
CIN- L74899DL1993PLC055697, Email ID: [ekam.leasing1@gmail.com](mailto:ekam.leasing1@gmail.com)  
Regd. Off. : NO. 11,RANI JHANSI ROAD, (MOTIA KHAN), M.M. ROAD, NEW DELHI -110055

**EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE 2024**

S. NO.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter ended		Year Ended		Quarter ended		Year Ended	
		30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
		Reviewed	Reviewed	Reviewed	(Audited)	Reviewed	Reviewed	Reviewed	(Audited)
1.	Total income from operations	15.91	15.47	16.83	65.17	15.91	15.46	16.83	65.17
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-6.12	57.89	6.89	68.01	0.34	60.86	6.89	87.48
3.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items) items and/or item Extraordinary items)/Profit or loss of JV	-6.12	57.89	6.89	68.01	0.34	60.86	6.89	87.48
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extra-ordinary items)	-1.12	42.78	6.67	49.40	3.65	41.68	6.67	63.37
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-1.12	42.78	6.67	49.40	3.65	41.68	6.67	63.37
6.	Equity Share Capital	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-	39.39	-	-	-	589.55
8.	Earnings Per Share (of Rs.10/-each) (for continuing operations)-								
	Basic:-	-0.02	0.71	0.11	0.82	0.06	0.69	0.11	1.06
	Diluted:-	-0.02	0.71	0.11	0.82	0.06	0.69	0.11	1.06

Notes:  
1. The above results are an extract of the detailed format of Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the Quarter ended on 30th June 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated un-audited Financial Results is available on the Stock Exchanges website i.e. ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and on the Company's website ([www.ekamleasing.com](http://www.ekamleasing.com)).  
2. Previous Years/ Quarterly figures have been regrouped/rearranged, wherever necessary.  
3. The results for the quarter ended on 30th June 2024 are in Compliance with Indian Accounting Standards (IND-AS) as notified by the Ministry of Corporate Affairs.  
4. The above result were reviewed by the Audit Committee and were approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on August 14, 2024.

On Behalf of the Board of Directors  
**EKAM LEASING AND FINANCE CO. LIMITED**  
Sd/-  
Rakesh Jain  
Chairman Cum Managing Director  
DIN: 00061737  
Place-New Delhi  
Date-August 14, 2024

**Form No. INC-26**  
(Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)  
Before the Central Government,  
Regional Director, Northern Region, New Delhi  
In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND  
In the matter of  
**M/S. SHOKUTSU NIHONBASHI RESTAURANTS PRIVATE LIMITED** (CIN: U55101DL2019PTC344320) having its Registered Office at Bharti Crescent, 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, Phase-II, South Delhi, New Delhi, Delhi - 110070  
.....Applicant Company / Petitioner  
NOTICE is hereby given to the General Public that the Applicant Company proposes to make an application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary General Meeting held on August 13<sup>th</sup> 2024 to enable the Company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Haryana".  
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post his /her objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, within fourteen (14) days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its Registered Office at the registered address mentioned below:-  
Bharti Crescent, 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, Phase-II, South Delhi, New Delhi, Delhi - 110070  
For & on behalf of SHOKUTSU NIHONBASHI RESTAURANTS PRIVATE LIMITED  
Sd/-  
AJAY SINGHAL  
(DIRECTOR)  
DIN: 07184122  
Date : 14.08.2024 | Place : New Delhi

**Rollatainers Limited**  
CIN : L21014HR1968PLC004844  
Regd. Off.: Plot No. 73-74, Phase- III, Industrial Area, Dharuhera, District- Rewari, Rewari HR-123106 IN  
Tel: +91-0124-243326,242220 | Email : [cs.rollatainers@gmail.com](mailto:cs.rollatainers@gmail.com) | Website: [www.rollatainers.in](http://www.rollatainers.in)

**EXTRACT OF THE STATEMENT OF UN-AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON JUNE 30,2024**

Sr. No.	Particulars	(Rs. in Lakhs)							
		STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
30.06.2024 (Un-Audited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2023 (Un-Audited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2024 (Un-Audited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2023 (Un-Audited)	31.03.2024 (Audited)		
1.	Total Income from operations	15.09	34.32	29.86	117.60	5.09	55.06	49.26	196.95
2.	Profit/(Loss) before share of profit/(Loss) of associates and joint venture, exceptional items and tax	(29.15)	0.84	(10.76)	(21.69)	(58.50)	(160.08)	(30.99)	(196.72)
3.	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(29.15)	0.84	(10.76)	(21.69)	(58.50)	(160.08)	(30.99)	(196.72)
4.	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(29.15)	0.84	(10.76)	(21.69)	(102.88)	(156.48)	(30.99)	(138.26)
5.	Net Profit for the period after tax from continuing business (after exceptional and/or extraordinary items)	(29.15)	0.84	(10.76)	(21.69)	(102.88)	(156.48)	(30.99)	(138.26)
6.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	(29.15)	0.84	(10.76)	(21.69)	(102.88)	(156.48)	(30.99)	(1,650.88)
7.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 1/- each)	2,501.30	2,501.30	2,501.30	2,501.30	2,501.30	2,501.30	2,501.30	2,501.30
8.	Earnings per Share (Face Value of Rs. 1/- each) for continuing operations)								
	(a) Basic	0.00	0.00	0.00	(0.01)	(0.04)	(0.06)	(0.01)	(0.59)
	(b) Diluted	0.00	0.00	0.00	(0.01)	(0.04)	(0.06)	(0.01)	(0.59)

Notes to financial results:  
1. The above unaudited financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee on 14th August, 2024 and subsequently have been approved by the Board of Directors of the company at their meeting held on 14th August, 2024.  
2. The Financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of regulations of the SEBI (listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015 (as amended).  
3. During the year, company has shown expense under the head Exceptional Items as detailed below:  
**Particulars**  
i) Balances written back  
Total  
Standalone  
0.00  
Consolidated  
(44.38)  
(44.38)

4. The consolidated financial statements include financial statements of the subsidiaries RT Packaging Ltd. and JV Rollatainers Toyo Machines Pvt. Ltd. (struck off) and Oliver Engineering Private Limited (till September, 2023).  
5. The Company's business activities which are primarily leasing and related activities falls within a single reportable segment as the management of the Company views the entire business activities as single segment. Accordingly, there are no additional disclosures to be furnished in accordance with the requirement of Ind AS 108 — Operating Segments with respect to single reportable segment. Also, therefore there are no reportable geographical segment.  
6. The Company's accumulated losses as on 30th June, 2024 stands at Rs.12,316.08 lakhs. The Group's accumulated losses as on 30th June, 2024 stand at Rs. 20,709.38 lakhs. However, these financial results have been prepared on the going concern basis as the management is confident on the Company's ability to continue as a going concern for a foreseeable future.  
7. Shareholders in an extraordinary general meeting on 16th May 2024 approved the issue of 11,76,47,070 convertible equity warrants to certain non-promoter entities on a preferential basis at Rs 1.70/- each, aggregating to Rs. 2,000 lacs. The Company is in the process of getting regulatory approval for the same.  
8. The Board of Directors of the Company in their meeting on 10th May 2024, have proposed variation/alteration in the terms of preference shares of the Company as below:  
(a) Allotment of 53,63,984 10% Compulsorily Convertible Preference Shares (CCPS) of Rs. 1/- each in lieu of existing 1,40,000, 10% Redeemable Non-Convertible Preference Shares (RNCPS) of Rs. 100 each.  
(b) Allotment of 3,83,14,176 2% Compulsorily Convertible Preference Shares (CCPS) of Rs. 1/- each in lieu of existing 10,00,000, 2% Redeemable Non-Convertible Preference Shares (RNCPS) of Rs. 100 each.  
The Extraordinary general meeting for this proposal is scheduled to be held on 05th June 2024. The Company is in the process of getting regulatory approval for the same.  
9. Previous year figures have been regrouped and rearranged wherever necessary to make them comparable with those of current year.

For **Rollatainers Limited**  
Sd/-  
**Aarti Jain** (Chairperson)  
DIN: 00143244  
Date: 14/08/2024  
Place: New Delhi

**"IMPORTANT"**  
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

